



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2897]

नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 9, 2016/अग्रहायण 18, 1938

No. 2897]

NEW DELHI, FRIDAY DECEMBER 9, 2016/AGRAHAYANA 18, 1938

कोयला मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 दिसम्बर, 2016

का.आ. 3685(अ).—केन्द्रीय सरकार ने, कोयला धारक क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम, 1957 (1957 का 20) (जिसे इसमें इससे पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 7 की उप-धारा (1) के अधीन जारी भारत सरकार के कोयला मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 1568(अ), तारीख 26 अप्रैल, 2016 द्वारा, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड(ii), तारीख 28 अप्रैल, 2016 में प्रकाशित की गई थी, उक्त अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट 469.780 हेक्टेयर (लगभग) या 1160.828 एकड़ (लगभग) और ऐसी भूमि में या उस पर के सतह अधिकार के अर्जन करने के अपने आशय की सूचना दी थी;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 8 के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है;

और केन्द्रीय सरकार का, पूर्वोक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात और ओडीशा राज्य सरकार के परामर्श करने के पश्चात यह समाधान हो गया है कि इसे संलग्न अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट 469.780 हेक्टेयर (लगभग) या 1160.828 एकड़ (लगभग) माप वाली भूमि में या उस पर के सतह अधिकार अर्जित किए जाने चाहिए;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 9 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती है कि अनुसूची में वर्णित 469.780 हेक्टेयर (लगभग) या 1160.828 एकड़ (लगभग) माप वाली भूमि में या उस पर के सतह अधिकार अर्जित किए जाते हैं।

इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र के रेखांक संख्या एमसीएल/आईवीवी/ सर्वे/एलओसीपी/2/16, तारीख 18 अक्तूबर, 2016 का निरीक्षण कलेक्टर, जिला झारसुगुड़ा(ओडीशा) के कार्यालया में या कोयला नियंत्रक, 1, काउंसिल

हाऊस स्ट्रीट, कोलकाता -700001 के कार्यालय में या महाप्रबंधक (भूमि और राजस्व), महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड, जागृति विहार, बुर्ला, जिला सम्बलपुर-768020(ओडीशा) के कार्यालय में किया जा सकता है।

अनुसूची

महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड

ब्लॉक-V का भाग और ओरिएंट खान नं.1,2 और 3

के पश्चिमी ब्लॉक का भाग

लजकुरा ओ.सी.पी. विस्तार, ईब वैली क्षेत्र

जिला – झारसुगुडा, ओडीशा

(रेखांक संख्या एमसीएल/आईबीवी/ सर्वे/एलओसीपी/2/16, तारीख 18 अक्टूबर, 2016)

सतह अधिकार:

क्रम सं.	मौजा/ग्राम	तहसील	ग्राम संख्या	जिला	क्षेत्र एकड़ में (लगभग)	टिप्पणियां
1.	ब्रजराजनगर टाउन यूनिट नं. 1	झारसुगुडा	40	झारसुगुडा	253.193	भाग
2.	चिंगरीगुडा	लखनपुर	11	झारसुगुडा	179.990	भाग
3.	छुआलीबेर्ना	लखनपुर	12	झारसुगुडा	727.645	भाग
कुल :					1160.828	

कुल : 1160.828 एकड़(लगभग) या 469.780 हेक्टेयर(लगभग)

अर्जित किए गए प्लॉट संख्यांक:

(1) ग्राम : ब्रजराजनगर टाउन यूनिट नं.1 :

प्लॉट संख्यांक 2 से 15,16(भाग),17 18(भाग), 67, 69, 70, 81(भाग), 86(भाग), 89 से 122, 180(भाग), 181 से 200, 201(भाग), 2160, 2500 से 2528, 2530 से 2533, 2536 से 2541, 3031, 110/4614, 181/4619, 184/4620, 189/4621,189/4622, 190/4623 और 2509/4971.

(2) ग्राम : चिंगरीगुडा :

प्लॉट संख्यांक 1 से 146, 150 से 157, 145/1137, 122/1138, 122/1141, 30/1145, 71/1146, 92/1147, 95/1148, 95/1149, 98/1150, 130/1151, 131/1152, 135/1153, 146/1154, 146/1155, 143/1207, 144/1208, 4/1218, 47/1222, 77/1230, 76/1233, 137/1234, 99/1235, 99/1236, 13/1240, 70/1295, 114/1302 और 124/1412.

(3) ग्राम : छुआलीबेर्ना :

प्लॉट संख्यांक 616 (भाग), 617 से 620, 621(भाग), 622(भाग), 623 से 638, 639(भाग), 640(भाग), 642(भाग), 643, 644, 645(भाग), 646,647,648(भाग), 658(भाग), 659 से 723, 795 से 986, 987(भाग), 988(भाग), 989 से 1001, 1002(भाग), 1324(भाग), 1325(भाग), 1326(भाग), 1327, 1328(भाग), 1341(भाग), 1342(भाग), 1343 से 1346, 1347(भाग), 1348(भाग), 1396(भाग),1415(भाग), 1416, 1417(भाग),1418(भाग),1419 से 1555, 1000/1565, 1425/1570, 1424/1571, 1420/1572, 1418/1573, 614/1619(भाग), 839/1621, 859/1622, 858/1623, 865/1624, 705/1625, 705/1626, 698/1627, 698/1628, 708/1629, 708/1630, 708/1631, 712/1632, 709/1633, 706/1634, 866/1635, 870/1636, 685/1639, 665/1640, 665/1641, 1520/1648,

984/1649, 985/1650, 985/1651, 977/1652, 1465/1662, 1465/1663, 1396/1664, 1429/1673, 1430/1674, 1431/1675, 1432/1676, 1432/1677, 1537/1678, 1538/1679, 1549/1680, 1549/1681, 1549/1682, 1549/1683, 1549/1684, 1549/1685, 1549/1686, 1549/1687, 1549/1688, 1539/1689, 1534/1703, 1432/1704, 1431/1705, 1553/1771, 1553/1772, 1553/1773, 1553/1774, 1553/1775, 1553/1776, 1553/1777, 1553/1778, 1553/1779, 1553/1780, 1553/1781, 1553/1782, 1553/1783, 1553/1784, 1553/1785, 1553/1786, 1553/1787, 1553/1788, 1553/1789, 1553/1790, 1553/1791, 1553/1792, 1553/1793, 1553/1897 और 1553/1902.

सीमा वर्णन :

रेखा क-ख : बिंदु संख्या 'क' से रेखा आरंभ होती है और ग्राम चिंगरीगुड़ा, बेलपहाड़, की सम्मिलित सीमा रेखा से लगकर गुजरती हुई छुआलीबेर्ना व बेलपहाड़ के सम्मिलित सीमा रेखा की सह सीमा रेखा के साथ गुजरती हुई छुआलीबेर्ना की प्लॉट संख्या 1418 में बिंदु संख्या 'ख' में मिल जाती है।

ख-ग : रेखा प्लॉट संख्या 1418, 1417 के पश्चिमी ओर से लगकर गुजरती है, फिर प्लॉट संख्या 1415 के पूर्वी ओर से लगकर गुजरती है, तत्पश्चात् छुआलीबेर्ना ग्राम के प्लॉट संख्या 1396, 1347 के मध्य से होती हुई बिंदु संख्या 'ग' में मिल जाती है।

ग-घ : यह, रेखा प्लॉट संख्या 1318, 1347, 1341, 1342, 1328, 1324, 1325, 1326, 1002, 988, 987, 616 के मध्य से गुजरती है, फिर प्लॉट संख्या 617 के पश्चिमी सीमा रेखा से लगकर गुजरती हुई ग्राम छुआलीबेर्ना के प्लॉट संख्या 1619, 621, 622, 640, 639, 642 के मध्य से गुजरती हुई बिंदु 'घ' में मिल जाती है।

घ-ङ. : यह, रेखा प्लॉट संख्या 643 के पश्चिमी सीमा रेखा से लगकर गुजरती है, फिर प्लॉट संख्या 645, 648, 660, 658 के मध्य से गुजरती है, तत्पश्चात् प्लॉट संख्या 662, 687 के पश्चिमी सीमा रेखा से लगकर गुजरती हुई ग्राम छुआलीबेर्ना के प्लॉट संख्या 662, 687, 722, 723, 799, 796, 795 के पश्चिमी सीमा रेखा से लगकर गुजरती हुई बिंदु 'ङ.' में मिल जाती है।

ङ.-च : यह, रेखा, ग्राम छुआलीबेर्ना के प्लॉट संख्या 795, 802, 807, 813, 820, 821, 822 के उत्तरी सीमा रेखा से लगकर गुजरती है, फिर ग्राम ब्रजराजनगर टाउन यूनिट संख्या 1 के प्लॉट संख्या 2, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 15 और 17 के उत्तरी सीमा रेखा से लगकर गुजरती हुई बिंदु संख्या 'च' में मिल जाती है।

च-छ: यह, रेखा ग्राम ब्रजराजनगर टाउन यूनिट सं. 1 के प्लॉट संख्या 18, 16 के मध्य से गुजरती है फिर ग्राम छुआलीबेर्ना के प्लॉट संख्या 833, 835, 846, 847 के पूर्वी सीमा रेखा से लगकर गुजरती हुई प्लॉट संख्या 68, 69, 70, 89 के पूर्वी सीमा रेखा से लगकर गुजरती है और प्लॉट संख्या 90 के उत्तरी सीमा रेखा से लगकर गुजरती हुई प्लॉट संख्या 86, 81 के मध्य से होकर प्लॉट संख्या 120, 121, 122, 181, 182, 183 के उत्तरी सीमा रेखा से लगकर गुजरती है फिर ग्राम छुआलीबेर्ना के प्लॉट संख्या 197, 198 के पूर्वी सीमा रेखा से लगकर गुजरती हुई बिंदु 'छ' में मिल जाती है।

छ-ज: यह, रेखा प्लॉट संख्या 200 के पूर्वी सीमा रेखा से लगकर गुजरती हुई प्लॉट संख्या 201 के मध्य से गुजरती हुई प्लॉट संख्या 2500, 2501, 2528, 2527, 2530, 2532, 2533, 2536 की पूर्वी सीमा रेखा से लगकर गुजरती है और ग्राम ब्रजराजनगर टाउन यूनिट संख्या 1 के प्लॉट संख्या 2538, 2160 के उत्तरी और पूर्वी सीमा रेखा से लगकर गुजरती हुई बिंदु 'ज' में मिल जाती है।

ज-क : यह, रेखा ग्राम ब्रजराजनगर टाउन यूनिट संख्या 1 के प्लॉट संख्या 2160, 3031, 2539, 2541 की दक्षिणी सीमा रेखा से लगकर गुजरती है और ग्राम चिंगरीगुड़ा के प्लॉट संख्या 157, 150, 151, 1154, 146, 1148, 94, 93, 92, 91, 1146, 71, 70, 65 के दक्षिणी सीमा रेखा से लगकर गुजरती हुई बिंदु 'क' में मिल जाती है।

[फा. सं. 43015/21/2016-पीआरआईडब्ल्यू-I]

आर.पी.गुप्ता, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF COAL**NOTIFICATION**

New Delhi, the 7th December, 2016

S.O. 3685(E).—Whereas, by the notification of the Central Government of India in the Ministry of Coal S.O.No.1568(E), dated the 26th April, 2016, issued under sub-section (1) of section 7 of the Coal Bearing Areas (Acquisition and Development) Act, 1957 (20 of 1957) (hereinafter referred to as the said Act) and published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), dated the 28 April, 2016, the Central Government gave notice of its intention to acquire 469.780 hectares (approximately) or 1160.828 acres (approximately) the lands and surface rights in or over such lands specified in the Schedule appended to that notification;

And whereas, the competent authority in pursuance of section 8 of the said Act has made his report to the Central Government;

And whereas, the Central Government after considering the report aforesaid and after consulting the Government of Odisha, is satisfied that the lands measuring 469.780 hectares (approximately) or 1160.828 acres (approximately) and surface rights in or over such lands as described in Schedule appended hereto should be acquired;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 9 of the said Act, the Central Government hereby declares that the land measuring 469.78 hectares (approximately) or 1160.828 acres (approximately) and surface rights over such lands as described in Schedule are hereby acquired.

The plan bearing number MCL/IBV/SURVEY/LOCP/2/16, dated the 18th October, 2016 of the area covered by this notification, may be inspected in the Office of the Collector, District Jharsuguda (Odisha) or in the Office of the Coal Controller, 1, Council House Street, Kolkata- 700001 or in the Office of the General Manager (Land and Revenue), Mahanadi Coalfields Limited, Jagruti Vihar, P.O. Jagruti Vihar, Burla, District Sambalpur-768020 (Odisha).

SCHEDULE

Mahanadi Coalfields Limited

PART OF IB BLOCK-V AND PART OF WESTERN BLOCK OF ORIENT MINE NO.1,2 AND 3

LAJKURA OCP EXPANSION, IB VALLEY AREA

DISTRICT : JHARSUGUDA, ODISHA

(Plan bearing number MCL/IBV/SURVEY/LOCP/2/16, dated the 18th October, 2016)

Surface Rights:

Sl. No.	Mouza/ Village	Tahasil	Village number	District	Area in acres (approximate)	Remarks
1.	Brajrajnagar Town Unit No.1	Jharsuguda	40	Jharsuguda	253.193	Part
2.	Chingriguda	Lakhanpur	11	Jharsuguda	179.990	Part
3.	Chhualiberna	Lakhanpur	12	Jharsuguda	727.645	Part
Total :					1160.828	

Total : 1160.828 acres (approximately) or 469.780 hectares (approximately)

Plots numbers acquired :

(1) Village : Brajrajnagar Town Unit No.1 :

Plot numbers 2 to 15, 16(P), 17, 18(P), 67, 69, 70, 81(P), 86(P), 89 to 122, 180(P), 181 to 200, 201(P), 2160, 2500 to 2528, 2530 to 2533, 2536 to 2541, 3031, 110/4614, 181/4619, 184/4620, 189/4621, 189/4622, 190/4623 and 2509/4971.

(2) Village : Chingriguda :

Plot numbers 1 to 146, 150 to 157, 145/1137, 122/1138, 122/1141, 30/1145, 71/1146, 92/1147, 95/1148, 95/1149, 98/1150, 130/1151, 131/1152, 135/1153, 146/1154, 146/1155, 143/1207, 144/1208, 4/1218, 47/1222, 77/1230, 76/1233, 137/1234, 99/1235, 99/1236, 13/1240, 70/1295, 114/1302 and 124/1412.

(3) Village : Chhualiberna :

Plot numbers 616(P), 617 to 620, 621(P), 622(P), 623 to 638, 639(P), 640(P), 642(P), 643, 644, 645(P), 646, 647, 648(P), 658(P), 659 to 723, 795 to 986, 987(P), 988(P), 989 to 1001, 1002(P), 1324(P), 1325(P), 1326(P), 1327, 1328(P), 1341(P), 1342(P), 1343 to 1346, 1347(P), 1348(P), 1396(P), 1415(P), 1416, 1417(P), 1418(P), 1419 to 1555, 1000/1565, 1425/1570, 1424/1571, 1420/1572, 1418/1573, 614/1619(P), 839/1621, 859/1622, 858/1623, 865/1624, 705/1625, 705/1626, 698/1627, 698/1628, 708/1629, 708/1630, 708/1631, 712/1632, 709/1633, 706/1634, 866/1635, 870/1636, 685/1639, 665/1640, 665/1641, 1520/1648, 984/1649, 985/1650, 985/1651, 977/1652, 1465/1662, 1465/1663, 1396/1664, 1429/1673, 1430/1674, 1431/1675, 1432/1676, 1432/ 1677, 1537/1678, 1538/1679, 1549/1680, 1549/1681, 1549/1682, 1549/1683, 1549/1684, 1549/1685, 1549/1686, 1549/1687, 1549/1688, 1539/1689, 1534/1703, 1432/1704, 1431/1705, 1553/ 1771, 1553/1772, 1553/1773, 1553/1774, 1553/1775, 1553/1776, 1553/1777, 1553/1778, 1553/ 1779, 1553/1780, 1553/1781, 1553/1782, 1553/1783, 1553/1784, 1553/1785, 1553/1786, 1553/ 1787, 1553/1788, 1553/1789, 1553/1790, 1553/1791, 1553/1792, 1553/1793, 1553/1897 and 1553/1902.

Boundary descriptions :

- Line A-B Line Start at point number 'A' and passes along the common boundary of village Chingriguda, Belpahar and then passes along the common boundary of Chhualiberna and Belpahar and meets at plot number 1418 of village Chhualiberna at point number 'B'.
- B-C: Line passes along the western of plot numbers 1418, 1417, then eastern of plot number 1415, then passes middle of plot number 1396, 1347 of village Chhualiberna and meets at point number 'C'.
- C-D Line passes along the middle of plot numbers 1318, 1347, 1341, 1342, 1328, 1324, 1325, 1326, 1002, 988, 987, 616 and then western boundary of plot number 617, then passes middle of plot numbers 1619, 621, 622, 640, 639, 642 of village Chhualiberna and meets at point number D.
- D-E Line passes along the Western boundary of plot number 643, then passes middle of plot numbers 645, 648, 660, 658, then passes along the Western boundary of plot numbers 662, 687, then passes along the Western boundary of plot numbers 662, 687, 722, 723, 799, 796, 795 of village Chhualiberna and meets at point numbers 'E'.
- E-F Line passes along the Northern boundary of plot numbers 795, 802, 807, 813, 820, 821, 822 of village Chhualiberna, then northern boundary of plot numbers 2, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 15 and 17 of village Brajrajnagar Town Unit number 1 and meets at point number 'F'.
- F-G Line passes along the middle of plot numbers 18, 16 of village Brajrajnagar Town Unit number 1 and then passes eastern boundary of plot numbers 833, 835, 846, 847 of village Chhualiberna and then passes eastern boundary of plot numbers 68, 69, 70, 89 and then passes northern boundary of plot number 90, middle of plot numbers 86, 81, northern boundary of plot numbers 120, 121, 122, 181, 182, 183, then eastern boundary of plot numbers 197, 198 of village Chhualiberna and meets at point number 'G'.
- G-H Line passes along the eastern boundary of plot number 200, middle of plot number 201, the eastern boundary of plot numbers 2500, 2501, 2528, 2527, 2530, 2532, 2533, 2536, then northern and eastern boundary of plot numbers 2538, 2160 of village Brajrajnagar Town Unit number 1 and meets at point number 'H'.
- H-A Line passes along the southern boundary of plot number 2160, 3031, 2539, 2541 of village Brajrajnagar Town Unit number 1, then passes southern boundary of plot numbers 157, 150, 151, 1154, 146, 1148, 94, 93, 92, 91, 1146, 71, 70, 65 of village Chingriguda and meets at point number 'A'.

[F. No. 43015/21/2016-PRIW-I]

R. P. GUPTA , Jt. Secy.